

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		अप्रै.19	मार्च 21	अप्रै.18	2025-26	2025
		1	2	3	4	%
I. बैंक ऋण (II+III)	18243936 (17822569)	16491796 (15970978)	18243936 (17822569)	18186759 (17774269)	-0.3 (-0.3)	10.3 (11.3)
II. खाद्यान्न ऋण	36531	18090	36531	32126	-12.1	77.6
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	18207404 (17786038)	16473706 (15952888)	18207404 (17786038)	18154634 (17742144)	-0.3 (-0.2)	10.2 (11.2)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2287071	2115986	2287071	2309631	1.0	9.2
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3937149 (3925090)	3655455 (3639138)	3937149 (3925090)	3895471 (3883660)	-1.1 (-1.1)	6.6 (6.7)
2.1 सूक्ष्म और लघु	791721	731994	791721	798669	0.9	9.1
2.2 मध्यम	360475	309427	360475	365378	1.4	18.1
2.3 बड़े	2784953	2614034	2784953	2731423	-1.9	4.5
3. सेवाएं	5161462 (5094021)	4605915 (4509188)	5161462 (5094021)	5088547 (5012374)	-1.4 (-1.6)	10.5 (11.2)
3.1 परिवहन परिचालक	258409	234760	258409	260093	0.7	10.8
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	32915	24774	32915	33451	1.6	35.0
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्ट्रां	83091	77054	83091	84692	1.9	9.9
3.4 शिपिंग	7305	6884	7305	7778	6.5	13.0
3.5 विमानन	46026	44998	46026	46540	1.1	3.4
3.6 पेशेवर सेवाएं	195956	173429	195956	194449	-0.8	12.1
3.7 व्यापार	1186787	1020885	1186787	1163877	-1.9	14.0
3.7.1 थोक व्यापार ¹	648619	537086	648619	621874	-4.1	15.8
3.7.2 खुदरा व्यापार	538168	483799	538168	542003	0.7	12.0
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	532757 (488689)	468803 (402521)	532757 (488689)	549472 (503090)	3.1 (2.9)	17.2 (25.0)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	1636098	1564519	1636098	1610587	-1.6	2.9
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	323146	330115	323146	314881	-2.6	-4.6
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	228678	232074	228678	220806	-3.4	-4.9
3.10 अन्य सेवाएं ³	1182118 (1166422)	989810 (969994)	1182118 (1166422)	1137607 (1116037)	-3.8 (-4.3)	14.9 (15.1)
4. व्यक्तिगत ऋण	5952299 (5610478)	5346354 (4938617)	5952299 (5610478)	5980893 (5656449)	0.5 (0.8)	11.9 (14.5)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23402	23577	23402	23279	-0.5	-1.3
4.2 आवास	3010477 (2689068)	2741455 (2358299)	3010477 (2689068)	3008941 (2704137)	-0.1 (0.6)	9.8 (14.7)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	141101	121868	141101	143518	1.7	17.8
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	10080	8472	10080	10488	4.0	23.8
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	284366	259641	284366	287172	1.0	10.6
4.6 शिक्षा	137456	119125	137456	137454	0.0	15.4
4.7 वाहन ऋण	622794	578504	622794	629691	1.1	8.8
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	208735	101552	208735	223034	6.9	119.6
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1513889 (1493525)	1392161 (1367743)	1513889 (1493525)	1517316 (1497721)	0.2 (0.3)	9.0 (9.5)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ⁴	2287804	2060244	2287804	2233685	-2.4	8.4
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	2240503	1964032	2240503	2313293	3.2	17.8
(iii) मध्यम उद्यम ⁶	601451	498958	601451	604299	0.5	21.1
(iv) आवास	746651 (665107)	753576 (659843)	746651 (665107)	744228 (663951)	-0.3 (-0.2)	-1.2 (0.6)
(v) शिक्षा ऋण	62825	61027	62825	62637	-0.3	2.6
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	10325	5712	10325	11979	16.0	109.7
(vii) सामाजिक अवसंरचना	1316	2619	1316	1147	-12.9	-56.2
(viii) निर्यात ऋण	12361	12539	12361	13086	5.9	4.4
(ix) अन्य	47900	75152	47900	48689	1.6	-35.2
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1820904	1605821	1820904	1789687	-1.7	11.5

टिप्पणियां:

- (1) आंकड़े अनंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करता है, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करता है।
- (2) 28 जुलाई 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।
- (3) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को शामिल नहीं करते हैं।
1. शोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएं शामिल हैं जो सेवाओं के तहत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।
4. मई 2024 से, एक बैंक ने खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "सोने के आभूषणों के खिलाफ ऋण" में बदल दिया है।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल हैं और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
7. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।